

October 30, 2025

Electronic Filing

National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza" Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai – 400051

Department of Corporate Services/Listing
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400001

NSE Symbol : APLAPOLLO

Scrip Code: 533758

Dear Sir/Madam,

Subject: Newspaper Advertisements of the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended on September 30, 2025

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose copies of the newspaper advertisements published in the "The Economic Times & Financial Express" (English) and "Jansatta & Navbharat Times" (Hindi) on October 30, 2025 with respect to the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2025.

The advertisement also includes a Quick Response code and the weblink to access complete financial results for the said period. The above information is being uploaded on the website of the Company at www.aplapollo.com.

We request you to kindly take the above information on your record.

Thanking you

Yours faithfully

For APL Apollo Tubes Limited

Vipul Jain
Company Secretary and Compliance Officer

Encl: a/a

APL Apollo Tubes Limited (CIN-L74899 DL 1986PLC023443)

Regd. Office : 37, Hargovind Enclave, Vikas Marg, Delhi - 110092, India Tel : +91 - 011 44457164

Corp Office : SG Centre, 37 C, Block B, Sector - 132, Noida, Uttar Pradesh - 201304 Tel : +91 - 120 6918000

Unit - 1 : A-19, Industrial Area, Sikandrabad, Distt. Bulandshahar, U.P. - 203205, India | Unit - 2 : 332-338, Alur Village Perandapali, Hosur,

Tamilnadu - 635109 India | Unit - 3 : Plot No. M-1, Additional M.I.D.C. Area, Kudavali, Murbad, Maharashtra, Thane - 421401, India

Unit - 4 : Village Bendri Near Urla Indil. Area, Raipur, Chhattisgarh - 493661, India | Unit - 5 : Sy. No. 443, 444, 538, 539, Wadiaram (Vill.), Chegunta,

Medak - 502255, Telengana, India | Unit - 6 : No. 9 to 11, KIADB Industrial Area Attibele, Bengaluru - 562107 | Unit - 7 : Plot No. 53, Part-1, 4th Phase,

Industrial Area, Sy. No. 28-33, Kurandhalli Village, Kasaba Hobli, Malur, Taluk, Distt. Kolar-563130, Karnataka

Email : info@aplapollo.com Web : www.aplapollo.com

ON TRACK FOR NEW HIGHS Nifty just 200 points shy of its record; Analysts expect index to hit 26,300 in near term and 27,000 over the next year; IT, BFSI and oil & gas driving rise

Indices Hit 13-month High on Hopes of India-US Trade Deal

Our Bureau


Mumbai: Key indices surged to their highest levels in 13 months on Wednesday, aided by optimism around a potential US-India trade deal and expectations of an interest rate cut by the US Federal Reserve overnight. NSE's Nifty rose 117 points, or 0.45%, to close at 26,053. BSE's Sensex rose 368 points, or 0.44%, to end at 84,997. Both indices saw their best closing levels since September 27 last year. "We believe benchmark equity indices are poised to reach new all-time highs in the coming days, driven by strength in three key sectors — IT, BFSI and Oil and Gas, which together account for roughly 55% of the Nifty's weight," said Pankaj Pandey, head of fundamental research at ICICI Direct. His target on the Nifty is 26,300 in

Top Nifty 50 Movers

Since September 27, 2024 - Last time when Nifty closed above 26,000 mark

GAINERS	CMP (₹)	Chg (%)
Bharat Electronics	407.2	38.8
Eicher Motors	6,952.0	37.3
Bajaj Finance	1,063.0	37.0
Bharti Airtel	2,100.6	21.1
JSW Steel	1,207.9	20.6
LOSERS	CMP (₹)	Chg (%)
Trent	4,780.6	-39.0
Tata Motors*	411.4	-31.6
Tata Consultancy	3,057.6	-29.0
Bajaj Auto	9,034.0	-28.7
Coal India	382.0	-26.0

*Passenger Vehicles Compiled by: ETIG Database



the near term and 27,000 next year. Nifty is currently over 200 points shy of its record levels of 26,277. "While Nifty managed to close above the 26,000 level on the first day of the November series, follow-up buying was missing, which could have taken the index up to 26,100-26,200," said Rajesh Palviya, head of technical and derivatives research at Axis Securities. "Currently, the markets are moving on the back of newsflow, and street participants will closely be watching the US Fed meet outcome and any trade deal news from the US and China, which will then decide the direction of the indices." Palviya said Nifty may consolidate over the next few days, but as long as it remains above the 25,800, the bullish views remain intact, and the street could see fresh all-time highs in the first half of November itself.

SEBI PROPOSAL TO RESTRUCTURE MF FEE STRUCTURE

Fund House, Brokerage Stocks Tumble

Ruchita Sonawane & Prashant Mahesh

Mumbai: The capital markets regulator's proposals to trim mutual fund fees and to cap brokerage sent shares of brokerage firms and asset management companies tumbling with investors fearing a hit on their revenues and profitability. Among broking firms, IIFL Capital dropped 9.4%, Motilal Oswal Financial Services slumped 8% and Nuva-ma declined 0.6%. Nippon Life India Asset Management tumbled 5%, while HDFC Asset Management dropped 4.3%, Aditya Birla Sun Life AMC fell over 3% and Canara Robeco AMC dipped 4.6%. The Nifty Capital Markets Index fell 1.9%. Brokerage Jefferies said Sebi's plan to discontinue the additional 5 basis points (bps) that fund houses

are allowed to charge unitholders across schemes could have a large impact on AMCs. The move could have a 30-33% impact on earnings for both HDFC AMC and Nippon AMC if implemented in FY27, it said. Sebi's other key proposal was to cap the brokerage that mutual funds pay broking firms for cash market trades at 2 basis points, as against the current 12 bps and 1 basis points for derivatives from the existing 5 bps. Mutual fund officials said if the norms come into effect, brokerages and mutual fund distributors are expected to bear the brunt. "Revenues for some AMCs may fall for a short period since this will be a period of adjustment, but they are likely to reduce payouts to distributors gradually," said Sandeep Bagla, CEO, Trust Mutual Fund.

Continued on ►► Smart Investing

BROKERAGE STOCKS	Change (%)	
	1-Day	2025
Motilal Oswal Financial	-7.9	3.6
IIFL Capital Services	-9.4	0.4
Share India Securities	-4.1	-34.0
Angel One	-1.0	-16.7
ASSET MANAGEMENT COMPANIES		
Nippon Life India	-5.0	14.1
HDFC AMC	-4.3	29.8
Aditya Birla Sun Life AMC	-3.5	-6.5
Canara Robeco AMC	-4.6	7.5
WEALTH MANAGERS		
360 ONE WAM	-3.6	-11.6
Anand Rathni Wealth	-2.7	57.4
Nuvama Wealth	-0.6	5.9



Feeling the Heat

Source: NSE

GROWTH MODERATE, INFLATION STAYS ELEVATED

A Divided Fed Cuts Rate by 25 bps, Sets End to Balance-Sheet Runoff

Move was expected after Powell indicated employment could weaken further

Bloomberg

Federal Reserve officials delivered their second consecutive interest-rate reduction to support a softening labour market, and said they would stop shrinking the central bank's portfolio of assets on December 1. In their post-meeting statement, Fed policymakers on Wednesday repeated their assessment that "job gains have slowed" and said "risks to employment rose in recent months."

Officials characterised economic growth as "moderate" and said inflation "has moved up since earlier this year and remains somewhat elevated."

The Federal Open Market Committee voted 10-2 to lower the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point to 3.75-4%.

Fed officials on both ends of the policy spectrum opposed the decision. Governor Stephen Miran, who joined the central bank last month and is on unpaid leave from his post as chair of the White House Council of Economic Advisers, dissented again in favor of a larger, half-point reduction. Kansas City Fed President Jeff Schmid said he preferred not to cut rates at all, after supporting last month's rate reduction.

The S&P 500 held gains, while Treasury yields and the dollar moved higher.

Fed Chair Jerome Powell will hold a press conference at 2:30 pm in Washington.

Fed officials lowered rates last month for the first time this year after a marked cooldown in hi-



ring raised worries about fragilities in the labour market.

Wednesday's move was widely anticipated after Powell said earlier this month that employment could weaken further. Additional declines in job openings, he said, "might very well show up in unemployment."

Fed officials are divided, however, over how much more to ease. Several policymakers have cautioned against lowering borrowing costs too rapidly with inflation still running above the Fed's 2% target.

Rate projections released last month showed 9 out of 19 policymakers expected no more than one additional rate reduction this year after last month's cut, including seven who preferred no further moves in 2025.

The statement nodded to the fact that an ongoing government shutdown has limited their access to economic data. In describing the labor market, officials referenced the unemployment rate "through August."

The Fed's job is growing increasingly difficult as officials are forced to make policy decisions without most of the economic data they typically rely on. The shutdown has frozen or pushed back the compilation and release of reports tracking the labor market, prices, spending and other key indicators.

ETPrime

Shifting focus



The rosy picture that Ola Electric portrayed for itself and the electric two-

wheeler market in the offer document ahead of IPO last year is a far cry. Amid debt raise moves and continuing service woes, Bhavish Aggarwal stares at another lacklustre quarter. For the July-September period, sales were down about 46% on a yearly basis and 12% quarter-on-quarter. The launch of Ola Electric's new business of electric-storage systems coincides with a new competitor in EV two-wheelers snapping at its heels. **Manu P Toms** analyses.

Market rituals



Every morning, before the bell rings at 9:15 am, stock exchanges host a little ritual:

the pre-open session. For 15 minutes, traders are invited to submit orders, supposedly to determine a fair "equilibrium price" that reflects overnight news and global cues. A similar window follows the closing bell. On paper, these windows are designed to enhance transparency, reduce volatility, and improve price discovery. In practice, they are more symbolic than substantive. **Writes R Gurumurthy.**

Re Rises 7 Paise

MUMBAI The rupee appreciated 7 paise to close at 88.22 against the dollar on Wednesday, on strong domestic markets and optimism over the trade deal between India and the US. Forex traders said trade deal optimism and easing crude prices enthused investor sentiment, even as importer demand for dollars capped sharp gains. — **PTI**

APL APOLLO TUBES LIMITED

CIN: L74899DL1986PLC023443
Regd. Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092
Corp. Office: SG Centre, 37C, Block A, Sector 132, Noida, U.P. 201304
Email: info@aplapollo.com | Website: www.aplapollo.com
Tel: 0120-6918000



EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025

(₹ in Crs. except earning per share data)

S. No	Particulars	Quarter ended	Half Year ended	Quarter ended
		Sep 30, 2025	Sep 30, 2025	Sep 30, 2024
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Total Income from Operations	5,206.30	10,376.07	4,773.91
2	EBITDA	472.09	869.66	152.84
3	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	386.36	696.31	69.59
4	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	386.36	696.31	69.59
5	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	301.54	538.71	53.81
6	Total Comprehensive income for the period	294.85	550.8	34.46
7	Equity Share Capital	55.53	55.53	55.51
8	Other Equity	-	-	-
9	Earnings Per Share (face value of ₹2/- not annualised for quarterly figures) Basic: Diluted:	10.86 10.86	19.41 19.40	1.94 1.94

Notes:

1	Brief of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2025:			
Particulars	Quarter ended	Half Year ended	Quarter ended	
	Sep 30, 2025	Sep 30, 2025	Sep 30, 2024	
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	
Income from Operations	3,186.19	6,558.73	3,321.37	
Profit Before Tax	142.43	298.87	11.67	
Profit After Tax	106.24	222.29	5.92	
2	The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.aplapollo.com". The same can be accessed by scanning the QR Code provided below:			

Place: Noida
Date: 29 Oct, 2025



For APL Apollo Tubes Limited
sd/-
Sanjay Gupta
Chairman and Managing Director



Defined by
Results
Driven by
Relationships

Advances 17.7%/10.1% Y-o-Y/YTD*	Deposit 19.8%/12.0% Y-o-Y/YTD*	ROA 1.3% Q2FY26	CASA 33.9% Q2FY26	NNPA/Credit Cost 1.4%/0.2% Q2FY26	CAR 24.2% Q2FY26
---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	-------------------------	---	------------------------

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 2025

(₹ in Crores)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		Financial Year Ended
		September 30, 2025 (Unaudited)	September 30, 2024 (Unaudited)	March 31, 2025 (Audited)
1	Gross Advances	7,907	6,718	7,184
2	Deposits	9,317	7,780	8,323
3	Net Worth	1,386	1,259	1,334
4	Profit After Tax	35	33	132

- a) The above result has been approved by the Board of Directors in the meeting held on October 29, 2025.
b) The detailed financial results are available at www.capital.bank.in

For and on Behalf of the Board of Directors
of **Capital Small Finance Bank Limited**
sd/-
Sarvjit Singh Samra
Managing Director & CEO (DIN:00477444)

Place: Jalandhar
Date: October 29, 2025



Vishwas Se Vikas Tak

Capital Small Finance Bank Limited (CIN: L65110PB1999PLC022634)
Regd. & Head Office: "MIDAS Corporate Park", 3rd Floor, 37 G.T. Road, Jalandhar, Punjab, INDIA - 144 001 Tel.: 0181-505 1111, 505 2222
E-mail: investorrelations@capitalbank.co.in | www.capital.bank.in



Scan for detailed financials

**quant Mutual Fund**

Registered Office: 6th Floor, Sea Breeze Building, A. M. Road, Prabhadevi, Mumbai - 400 025.
Tel.: +91 22 6295 5000 E-mail: help.investor@quant.in Website: www.quantmutual.com

NOTICE NO. 22/2025**Unaudited Half-Yearly Financial Results for the Schemes of quant Mutual Fund for the period ended September 30, 2025**

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT, to all Unit holder(s) of quant Mutual Fund ("the Fund") that in accordance with Regulation 59 of the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with Clause 5.3 of SEBI Master Circular dated June 27, 2024, the Unaudited Half Yearly Financial Results of schemes of the Fund for the period ended September 30, 2025 has been hosted on the website of the Fund viz. www.quantmutual.com and on the AMFI website viz. www.amfiindia.com.

Unit holder(s) can accordingly view / download the aforesaid results of the Schemes of the Fund from the website of the Fund.

For quant Money Managers Limited
(Investment Manager for quant Mutual Fund)

Sd/-

Authorised Signatory

Place : Mumbai

Date : October 28, 2025

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

**FRANKLIN TEMPLETON****Franklin Templeton Mutual Fund**

Registered Office: One International Center, Tower 2, 12th and 13th Floor,
Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West), Mumbai 400013

NOTICE

Investors and prospective investors may note that pursuant to Regulation 59 of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, a soft copy of the unaudited half-yearly financial results of the schemes of Franklin Templeton Mutual Fund for the period ended September 30, 2025 has been uploaded on Franklin Templeton Mutual Fund's website (www.franklintempletonindia.com) in a user-friendly and downloadable format (Microsoft Excel spreadsheet).

For Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd.

(Investment Manager of Franklin Templeton Mutual Fund)

Sd/-

Authorized Signatory

Date: October 29, 2025

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



CAPTAIN POLYPLAST LTD.
e-mail : info@captainpolyplast.in
web : www.captainpolyplast.com
CIN No. : L25209GJ1997PLC031985

NOTICE

Pursuant to regulation 29 of the SEBI LODR 2015, notice is hereby given that the meeting of board of directors of the company will be held on Saturday, 8TH November 2025 interalia,

To consider the standalone & consolidated unaudited financial results for the quarter ended on 30th SEPTEMBER, 2025.

The said notice can be accessed on the website of the company at www.captainpolyplast.com and may also be accessed on the stock exchange website at www.bseindia.com.

Place : Rajkot

Date : 29/10/2025

For, Captain Polyplast Ltd

Sd/-

Khyati Mehta

(Company Secretary)

**NOTICE****HALF YEARLY FINANCIAL RESULTS OF SCHEMES OF UTI MUTUAL FUND FOR THE PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2025**

In line with regulation 59 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996, the unaudited Half Yearly Financial results of the schemes of UTI Mutual Fund for the period ended September 30, 2025 have been hosted on our website www.utimf.com

Investors may view/download the results from our website.

For UTI Asset Management Company Limited

Sd/-

Authorised Signatory

Mumbai

October 29, 2025

Toll Free No.: 1800 266 1230

www.utimf.com

REGISTERED OFFICE: UTI Tower, 'Gn' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051.
Phone: 022 - 66786666. UTI Asset Management Company Ltd. (Investment Manager for UTI Mutual Fund)
E-mail: invest@uti.co.in, compliance@samhi.co.in, UTI-65991MH2002PLC137867.

For more information, please contact the nearest UTI Financial Centre or your AMFI/ NISM certified Mutual fund distributor, for a copy of Statement of Additional Information, Scheme Information Document and Key Information Memorandum cum Application Form.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



WhiteOak Capital Asset Management Limited
(CIN- U65990MH2017PLC294178)
Registered Office: Unit No. B4, 6th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025.
Website: <https://mf.whiteoakamc.com> **Toll Free No.:** 1800-266-3060
Email: clientservice@whiteoakinvestors.com

DISCLOSURE WITH RESPECT TO UNAUDITED HALF-YEARLY FINANCIAL RESULTS OF WHITEOAK CAPITAL MUTUAL FUND

NOTICE is hereby given to the Investors/Unit holders of WhiteOak Capital Mutual Fund ("the Fund") that pursuant to Regulation 59 of SEBI (Mutual Funds) Regulations 1996, read with Clause 5.3 of SEBI Master Circular for Mutual Funds dated June 27, 2024, a soft copy of the unaudited half-yearly financial results of the schemes of the Fund for half-year ended September 30, 2025, has been hosted on the website of the Fund.

The Investors/Unit holders can view/download the scheme's unaudited half-yearly financial results from the website i.e. <https://mf.whiteoakamc.com>.

For WhiteOak Capital Asset Management Limited

(Investment Manager for WhiteOak Capital Mutual Fund)

Sd/-

Authorised Signatory

Place : Mumbai

Date : October 29, 2025

Mutual Fund Investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



Regd. Office: DN 32, Sector V, Salt Lake, Kolkata - 700091; CIN: L67190WB2014PLC204622;
Head Office: 12th to 14th Floor, Adventz Infinity@5, Sector V, Salt Lake City, Kolkata - 700 091
Phone: 91-33-6609 0909; Fax: 91-33-6609 0502;
Email: investors@bandhanbank.com; Website: www.bandhanbank.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

"100 days Campaign- 'Saksham Niveshak'" & "Opening of Special window for eligible physical shareholder"

A. 100 DAYS CAMPAIGN- "SAKSHAM NIVESHAK"

The Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPFA") has launched a 100-day campaign titled "Saksham Niveshak", from July 28, 2025 to November 06, 2025. This national drive is aimed at empowering Shareholders by creating awareness about unclaimed dividends held with companies and guiding them through the process of updating their KYC and nomination details to reclaim their rightful dividend. The campaign focuses on the following key actions:

- **Proactive Engagement:** Reach out to shareholders to update their KYC, bank mandates, and contact information.
- **Transfer to IEPFA:** Dividend is paid to the rightful claimant, so that the transfer of shares to IEPFA is not required, by ensuring all eligible shareholders make update to their KYC.
- **Dividend from Company:** Enable shareholders to receive their rightful claims directly from the Company.

In view of the above, Bandhan Bank (the "Bank") has already communicated through email to the shareholders who are yet to claim their unpaid dividend from the Bank about the "Saksham Niveshak" Campaign. The Bank has also been requesting shareholders to update through KYC, bank mandates and other information through various means such as newspaper notices, emails, publication on the Bank's websites, Annual Report, etc.

Shareholders, who have not yet updated their KYC, bank mandates, nominations and other relevant information with the Bank, are requested to do so in order to receive dividend in their bank account and avoid transfer of shares to IEPFA. The Shareholders may directly reach out to the Bank or its Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") i.e. KFin Technologies Limited, at below mentioned address, for updation of KYC, bank mandates and nomination. Further, in case Shareholders holding shares in demat mode may update these details with their Depository Participants. Timely action by shareholders will ensure that their dividends and underlying shares are not transferred to IEPFA as a part of broader objectives of Niveshak Shivar initiative.

B. OPENING OF SPECIAL WINDOW FOR TRANSFER OF SHARES FOR SPECIFIED PERIOD

SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, decided to open a special window only for re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to the deadline of April 01, 2019 and rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents/process/or otherwise, for a period of six months from **July 07, 2025 till January 06, 2026**. In view of the above, shareholders who had lodged physical share transfer requests before April 01, 2019, and whose cases were rejected or returned due to document deficiencies and are eligible to re-lodge their claims for transfer of their physical shares during specified period only i.e. from **July 07, 2025 to January 06, 2026**. Eligible shareholders are requested to re-lodge their transfer requests with complete and correct documentation with the Bank's RTA at below mentioned address.

KFin Technologies Limited
(Unit: Bandhan Bank Limited)
Selenium Building, Tower B, Plot Nos. 31 & 32, Financial District,
Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi, Telangana,
India. Pin code - 500032
Toll-Free no.: 1800 309 4001
Email: einward.ris@kfintech.com

Bandhan Bank Limited
Head Office:
12th to 14th Floor, Adventz Infinity@5, Sector V,
Salt Lake City, Kolkata Pin code-700 091,
West Bengal
Tel: 033-66090909
Email: investors@bandhanbank.com

For and on behalf of
Bandhan Bank Limited
Sd/-
Indranil Banerjee
Company Secretary/Nodal Officer

Place: Kolkata

Date: October 29, 2025

APL APOLLO TUBES LIMITED

CIN: L74899DL1986PLC023443
Regd. Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092
Corp. Office: SG Centre, 37C, Block A, Sector 132, Noida, U.P. 201304
Email: info@aplapollo.com | Website: www.aplapollo.com
Tel: 0120-6918000

**EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025**

(₹ in Crs. except earning per share data)

S. No	Particulars	Quarter ended	Half Year ended	Quarter ended
		Sep 30, 2025	Sep 30, 2025	Sep 30, 2024
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Total Income from Operations	5,206.30	10,376.07	4,773.91
2	EBITDA	472.09	869.66	152.84
3	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	386.36	696.31	69.59
4	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	386.36	696.31	69.59
5	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	301.54	538.71	53.81
6	Total Comprehensive income for the period	294.85	550.8	34.46
7	Equity Share Capital	55.53	55.53	55.51
8	Other Equity	-	-	-
9	Earnings Per Share (face value of ₹2/- not annualised for quarterly figures)			
	Basic:	10.86	19.41	1.94
	Diluted:	10.86	19.40	1.94

Notes:

(₹ in Crs.)

1	Brief of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2025:			
Particulars	Quarter ended	Half Year ended	Quarter ended	
	Sep 30, 2025	Sep 30, 2025	Sep 30, 2024	
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	
	Income from Operations	3,186.19	6,558.73	3,321.37
	Profit Before Tax	142.43	298.87	11.67
	Profit After Tax	106.24	222.29	5.92
2	The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website " www.aplapollo.com ". The same can be accessed by scanning the QR Code provided below:			

Place: Noida

Date: 29 Oct, 2025



For APL Apollo Tubes Limited
Sd/-
Sanjay Gupta
Chairman and Managing Director



DESH KI
BADHTI
TAAQAT

**SAMHI Hotels Limited**

CIN : L55101DL2010PLC211816

Registered Office : Caspia Hotels Delhi, District Centre Crossing, Opp. Galaxy Toyota Outer Ring Road, Haider Pur, Shalimar Bagh, Delhi-110088;
Website : www.samhi.co.in; Email : compliance@samhi.co.in; Telephone : +91 (124) 4910100

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2025

(INR in millions, except per equity share data)

Particulars	Quarter ended			Six months ended		Year ended
	30 September 2025	30 June 2025	30 September 2024	30 September 2025	30 September 2024	31 March 2025
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income	2,963.35	2,872.97	2,668.58	5,836.32	5,210.70	11,385.65
EBITDA before exceptional items	1,104.97	1,055.87	967.21	2,160.84	1,857.73	4,251.41
Profit before tax from continuing operations	1,223.30	259.05	136.74	1,482.35	192.26	677.41
Profit after tax from continuing operations	1,024.24	220.38	140.91	1,244.62	203.93	925.77
Profit/(loss) before tax from discontinued operations	(26.29)	(28.22)	(14.76)	(54.51)	(35.44)	(70.77)
Profit/(loss) after tax from discontinued operations	(26.29)	(28.22)	(14.76)	(54.51)	(35.44)	(70.77)
Profit for the period/year	997.95	192.16	126.15	1,190.11	168.49	855.00
Total comprehensive income for the period/year	995.91	192.10	126.69	1,188.01	164.79	849.86
Paid up equity share capital (face value of INR 1 each, fully paid)	221.21	221.21	220.05	221.21	220.05	221.21
Other equity						
Earnings per equity share from continuing and discontinued operations (Face value of INR 1 each):						
Basic (INR) (not annualised for quarters and six months ended)	4.51	0.87	0.57	5.38	0.77	3.88
Diluted (INR) (not annualised for quarters and six months ended)	4.47	0.86	0.56	5.32	0.75	3.84

Key numbers of Standalone Financial Results

Particulars	Quarter ended			Six months ended		Year ended
	30 September 2025	30 June 2025	30 September 2024	30 September 2025	30 September 2024	31 March 2025
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income	353.11	339.78	398.33	692.89	756.38	1,511.87
Profit/(loss) before tax from continuing operations	925.40	487.10	(14.34)	1,412.50	3.49	272.81
Profit/(loss) before tax from discontinued operations	(26.29)	(28.22)	(14.76)	(54.51)	(35.44)	(70.77)
Profit/(loss) for the period/year	899.11	458.88	(29.10)	1,357.99	(31.95)	202.04

Notes:

- 1) The above is the extract of the detailed format of quarter and six months ended 30 September 2025 Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under the Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, as amended ("Listing Regulations"). The Statement of Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results for the quarter and six months ended 30 September 2025 are available on the Bombay Stock Exchange website (URL: www.bseindia.com), the National Stock Exchange website (URL: www.nseindia.com) and on the Parent's website (URL: www.samhi.co.in).
- 2) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 28 October 2025.
- 3) The above results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting" ("Ind AS 34"), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time, and other accounting principles generally accepted in India and in compliance with Listing Regulations.



For and on behalf of Board of Directors of
SAMHI Hotels Limited
Sd/-
Ashish Jakhanwala
Chairman, Managing Director and CEO
DIN: 03304345

Place: Gurugram
Date: 28 October 2025

शादी सीज़न ऑन ! 2 नवंबर से बैड-बाजा-बरात का होगा धमाका, दिल्ली में हॉल फुल

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली: देव उठनी एकादशी और तुलसी शालीग्राम विवाह के साथ ही 2 नवंबर से शादियों का सीजन शुरू हो रहा है। इस बार शादियों का सीजन जुलाई 2026 के मध्य तक चलेगा। आचार्य आशीष शास्त्री ने बताया, 7 दिसंबर से 4 फरवरी तक शादियों के मुहूर्त नहीं हैं। इस दौरान शुक्र तारा अस्त रहेगा। 5 फरवरी से विवाह के मुहूर्त होंगे। शास्त्रियों के अनुसार, 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी से शादियाँ और सभी तरह के मंगल कार्य बंद थे। अब भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जाग रहे हैं और सभी तरह के मंगलकार्य हो सकेंगे। 2 नवंबर को तुलसी शालीग्राम विवाह के मौके पर अब्बु साया हैं। इस दिन बिना किसी मुहूर्त के भी शादियां होती हैं।

बैक्विट हॉल्स में बुकिंग तेज

बैक्विट हॉल संचालकों के अनुसार, बड़े मुहूर्तों पर नवंबर और दिसंबर में काफी अच्छी बुकिंग है। बैकिंग अप्रैल-मई के लिए भी इस समय बुकिंग तेजी से हो रही है। 50 से 60 फीसदी तक बुकिंग हो भी चुकी है। नवंबर में 14 और दिसंबर में 3 बड़े मुहूर्त हैं।

दिल्ली कम्युनिटी वेलफेयर बैक्वेट असोसिएशन के प्रेजिडेंट रमेश डेग ने बताया, शादियों के शुभ मुहूर्त इस बार काफी अच्छे हैं। शादियों का सीजन आमतौर पर रोजगार का भी होता है। लगभग हर बैक्विट हॉल में मैनेजमेंट के लिए 40 से 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त कर्मी रखे जा रहे हैं।

जनकपुरी के बैक्विट हॉल संचालक जितेंद्र अग्रवाल ने बताया कि बुकिंग इस बार काफी अच्छी है। हालांकि पिछले सीजन की तुलना में इस बार महंगाई भी अधिक है। इसलिए चार्ज भी करीब 5 से 8% तक बढ़े हैं।

‘बड़े मुहूर्त पर 15 से 17 हजार शादियां’

बैक्विट हॉल संचालकों के अनुसार, दिल्ली में हर बड़े मुहूर्त पर 15 से 17 हजार तक शादियां होती हैं। इस बार मुहूर्त काफी हैं इसलिए शादियों की बुकिंग के लिए अव्यवस्था जैसी बात नहीं रहेगी। शादियों की बुकिंग की बात करें तो इनमें बैक्विट हॉल, मैरेज होम, गार्डन, पार्क, पंडाल उत्सव, होटल सभी मिलाकर शामिल हैं।

‘बैड वाले भी तैयार’

शादियों के मुहूर्त के साथ ही बैड और घोड़े वालों ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। नजफगढ़ के बैड वाले सुरेंद्र यादव ने बताया, उनके यहां 70 कर्मी हैं और तीन घोड़ियां हैं। चार उन्होंने इस सीजन के लिए किराये पर ली हैं। एक दिन में तीन जगह बैड और सभी घोड़ियों को बुकिंग पर भेजते हैं। अभी बग़ी की डिमांड अधिक है। बग़ी में भी लोग दो घोड़ियों की डिमांड करने लगे हैं। इसलिए घोड़ियों को मैनेज करना समस्या हो रहा है।

इन तारीखों पर शादियों के बड़े मुहूर्त

नवंबर: 2, 3, 6, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25	दिसंबर: 4, 5, 6
फरवरी (2026): 5, 6, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 26	मार्च (2026): 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12
अप्रैल (2026): 15, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29	मई (2026): 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14
जून (2026): 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29	जुलाई (2026): 1, 6, 7, 11

1 नवंबर से 10 दिसंबर तक 17 बड़े मुहूर्त आएंगे, अकेले देव उठनी एकादशी पर होगी 15 हजार से अधिक शादियां

सोनिया विहार से जगतपुर तक चलेगा यमुना क्रूज

Sudama.Yadav
@timesofindia.com

■ नई दिल्ली: यमुना के 6 किमी लंबे स्ट्रेच में क्रूज सर्विस शुरू करने के लिए दिल्ली सरकार के तीन विभागों को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई है। जल बोर्ड को सोनिया विहार से जगतपुर शनि मंदिर स्ट्रेच में पानी की क्वालिटी बेहतर करने को कहा गया है। सिंचाई और बाढ़ विभाग को इस स्ट्रेच में यमुना की गहराई और बढ़ाने का टास्क मिला है। इसके लिए दिसंबर में फिनलैंड से आने वाली मशीन से ड्रेजिंग का प्लान है। वही, क्रूज सर्विस के ऑपरेशन और मॉनिटिंग का काम दिल्ली टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट डिवेलपमेंट विभाग करेगा। अफसरों के अनुसार, यमुना में क्रूज सर्विस के लिए मार्च में इनलैंड वॉटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया आईडब्ल्यूआई के साथ डीडीए, जल बोर्ड, सिंचाई और बाढ़ विभाग और पर्यटन विभाग के साथ एग्रीमेंट किया गया है। डीडीए को नदी के किनारे जेट्टी डिवेलप कराने के लिए सोनिया विहार और जगतपुर के पास जमीन उपलब्ध करानी है।

सोनिया विहार

शनि मंदिर (जगतपुर)

फिनलैंड से आएगी मशीन, बढ़ेगी नदी की गहराई

पीने के पानी के लिए जल बोर्ड को नई लाइनें यहां तक बिछानी होंगी। जल बोर्ड को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सोनिया विहार से जगतपुर के बीच पानी की क्वालिटी बेहतर हो। जिस स्ट्रेच में क्रूज सर्विस का प्लान है, उस हिस्से की गहराई और बढ़ाई जाएगी। इसके लिए फिनलैंड से एक मशीन मंगाई जा रही है, जो दिसंबर तक दिल्ली पहुंच जाएगी।

दो सोलर हाइब्रिड बोट चलाई जाएंगी

यमुना के दोनों किनारों को मजबूत करने का काम सिंचाई और बाढ़ विभाग करेगा। इसके अलावा, क्रूज सर्विस के इस्तेमाल के लिए जेट्टी तक पहुंचने वाली रोड का निर्माण भी यही विभाग करेगा। क्रूज सर्विस का ऑपरेशन और मॉनिटिंग दिल्ली टूरिज्म संभालेगा। सर्विस की शुरुआत में दो सोलर हाइब्रिड बोट चलाई जाएंगी, जिनपर एक साथ 20 से 30 लोग सफर कर सकेंगे। इन बोट की स्पीड 9 से 10 किमी प्रति घंटे होगी। इस सर्विस का टिकट 10 से 12 रुपये तक रखा जाएगा।

एसिड अटैक केस में छात्रा के चाचा और भाई अरेस्ट

■ NBT रिपोर्ट, अशोक विहार: कथित एसिड अटैक की साजिश कहानी में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। बुधवार को पुलिस ने कथित विक्रम छात्रा के चाचा वकील और भाई को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर आरोप है कि इन्होंने ही एसिड अटैक की कहानी को अकील के साथ प्लांट किया था। एसिड अटैक में पहले आरोपी रहे जितेंद्र, अरमान, ईशान को पुलिस ने क्लीन लिट दे दी है। हालांकि एसिड अटैक की फेक विक्रम छात्रा को लेकर पुलिस लीगल ओपिनियन ले रही है। भलस्वा डेचरी थाने की पुलिस ने कथित पीड़िता के पिता अकील खान को दो दिन पहले रेप और ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। उस केस में एक दिन की रिमांड पर था। जिसे बुधवार को पुलिस ने जेल भेज दिया। बुधवार को भारत नगर पुलिस ने अकील के बेटे को अरेस्ट किया है। पुलिस सूत्रों से पता चला कि अकील के मोबाइल से एक महिला के कई अश्लील वीडियो और फोटो मिले हैं। इसको लेकर पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी।

दोनों पर आरोप है कि इन्होंने ही एसिड अटैक की कहानी को लड़की के पिता के साथ प्लांट किया था

मुंबई में भाई ने जासूसी के आरोपी को बताया था मरा हुआ, दिल्ली में पकड़ा गया ज़िंदा

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

मुंबई से दिल्ली तक देश विरोधी जासूसी की साजिश में पकड़े गए आदिल हुसैनी और उसके भाई अख्तर के बाद तीन संदिग्धों की तलाश है। ये तीनों संदिग्ध मुंबई क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के रडार पर हैं। आईबी के इनपुट पर पकड़े गए दोनों आरोपियों के नेटवर्क को पुलिस खंगाल रही है। स्पेशल सेल की गिरफ्त में आया आदिल 7 दिन की रिमांड पर है। हालांकि स्पेशल सेल के आला अफसरों ने बुधवार को सिर्फ इतना बताया कि आदिल के बारे में जांच चल रही है, पता लगा रहे हैं कि उसने कहा-कहा की संवेदनशील जानकारीयें विदेशी खुफिया एजेंसियों को साझा की हैं। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि

पासपोर्ट बनाकर बड़ी संख्या में लोगों को खाड़ी देशों में भेज रहे थे। यहां तक कि अख्तर भी कई बार नकली पासपोर्ट से विदेश यात्रा कर चुका है। उसके पास अलेक्जेंडर के नाम से दो पासपोर्ट मिले हैं। दिलचस्प यह कि स्पेशल सेल ने जिस आदिल को पकड़ा है। उसे मृत बताया गया था।

मुंबई में फर्जी वैज्ञानिक बनकर विदेश यात्रा करने वाले अख्तर ने अपने भाई आदिल को खुद 'मृत' घोषित कर दिया था। जिसे अब दिल्ली पुलिस में गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आदिल एक विदेशी-आधारित परमाणु वैज्ञानिक के संपर्क में था और पाकिस्तान सहित कई देशों की यात्रा कर चुका था। उस पर एक संवेदनशील संस्थान के तीन फर्जी पहचान पत्र प्राप्त करने का भी आरोप है।

APL APOLLO TUBES LIMITED

CIN: L74899DL1986PLC023443
Regd. Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092
Corp. Office: 5G Centre, 37C, Block A, Sector 132, Noida, U.P. 201304
Email: info@aplapollo.com | Website: www.aplapollo.com
Tel: 0120-6918000

REVENUE
+2.9%
Y-O-Y

EBITDA
+20.9%
Y-O-Y

PAT
+46.0%
Y-O-Y

EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025

S. No	Particulars	(₹ in Crs. except earning per share data)		
		Quarter ended	Half Year ended	Quarter ended
		Sep 30, 2025	Sep 30, 2025	Sep 30, 2024
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Total Income from Operations	5,206.30	10,376.07	4,773.91
2	EBITDA	472.09	869.66	152.84
3	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	386.36	696.31	69.59
4	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	386.36	696.31	69.59
5	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	301.54	538.71	53.81
6	Total Comprehensive income for the period	294.85	550.8	34.46
7	Equity Share Capital	55.53	55.53	55.51
8	Other Equity	-	-	-
9	Earnings Per Share (face value of ₹2/-not annualised for quarterly figures) Basic: Diluted:	10.86 10.86	19.41 19.40	1.94 1.94

Notes: (₹ in Crs.)

1	Brief of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2025:		
Particulars	Quarter ended	Half Year ended	Quarter ended
	Sep 30, 2025	Sep 30, 2025	Sep 30, 2024
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
Income from Operations	3,186.19	6,558.73	3,321.37
Profit Before Tax	142.43	298.87	11.67
Profit After Tax	106.24	222.29	5.92

2

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.aplapollo.com".
The same can be accessed by scanning the QR Code provided below:

Place: Noida
Date: 29 Oct, 2025

For APL Apollo Tubes Limited
Sd/-
Sanjay Gupta
Chairman and Managing Director

DESH KI
BANDHTI
TAQAT

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सुनहरे मौके बार बार नहीं आते !

जन साधारण आवास योजना फेज़ - I की अपार सफलता के बाद
(जिसमें सभी फ्लैट्स बिक चुके हैं)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए डीडिए लेकर आया है
जन साधारण आवास योजना 2025 फेज़ - II

1500 से ज़्यादा
रेडी-टू-मूव-इन फ्रीहोल्ड फ्लैट्स
(ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी में)

कीमत ₹ 11.8 लाख से शुरू
शुभारम्भ: 07.11.2025 | अपराह्न 12.00 बजे

दिल्ली के प्राइम लोकेशन पर

रोहिणी
लेक्टर 34 & 35
(अर्बन एक्सपेंशन रोड-1 के पास)

शिवाजी मार्ग, मोती नगर
(मोती नगर - सदायुक्त राम सिंह मार्ग
और बसईदाएरपुर मेट्रो स्टेशन के पास)

नरेला
G-6 और G-7, पॉइंट-A (अर्बन एक्सपेंशन
रोड-4 के पास, प्रस्तावित रिहाला - नरेला -
कुडली मेट्रो कोरिडोर के पास)

रामगढ़ कॉलोनी
(जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन
के पास)

पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर
पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया | साइट विज़िट की सुविधा उपलब्ध

अधिक जानकारी के लिए कॉल करें:
1800-110332

नियमित अपटोड के लिए विज़िट करें:
www.dda.gov.in | https://eservices.dda.org.in

हमें फॉलो करें:
@ddaoofficial @official_dda @Official_dda

